

नईदुनिया

Jabalpur Railway News : सावधान, ट्रेनों में बिक रहे हैं नकली पावर बैंक, बैटरी वाले खिलौने



सुरेंद्र दुबे शास्त्री, जबलपुर। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक की जरूरत पड़ रही है या आपका बच्चा बैटरी वाले खिलौने के लिए मचल रहा है तो तो ट्रेन के वेंडर से इन्हें खरीदते समय सावधानी बरतें। ऐसे पावर बैंक या बैटरी से चलने वाले खिलौने नकली हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर में पकड़ा गया है। वेंडर जो पावर बैंक बेच रहा था, उसमें गीली मिट्टी भरी हुई थी। पावर बैंक ग्राहक के सामने चल सके, इसके लिए उसमें खिलौने वाली बैटरी लगाई गई थी। ग्राहक ने ऐसे पावर बैंक को खरीद तो लिया लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद पावर बैंक ने काम करना बंद कर दिया तो उसे शक हुआ। इसकी शिकायत करने पर आरपीएफ ने जब उस वेंडर को पकड़ा तो इसका खुलासा हुआ। वह बैटरी से चलने वाले नकली खिलौने भी बेचा करता था। उसे यह सामान ट्रेन में ऐसे सामान बेचने का ठेका लेने वाली कंपनी से मिलता था। आरपीएफ को आशंका है कि ऐसा संगठित गिरोह देशभर में सक्रिय हो सकता है। पावर बैंक बेचने वाले व्यापारियों ने कहना है कि पावर बैंक खरीदते समय यात्रियों-उपभोक्ता को सावधानी रखना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जानकार ने बताया कि वर्तमान में तकनीकी में क्रांति आ गई है। जिसकी जानकारी रखने वाले थोड़े से पैसों के लालच में लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नकली सामान का इस्तेमाल कर हूबहू असली जैसा बना लेते हैं। कौन सा उपकरण असली है और कौन सा नकली, लोग यह भी पहचान नहीं पाते। नकली बैटरी या पावर बैंक चार्ज करने या इस्तेमाल करते समय कभी भी फट सकते हैं जबकि ब्रांडेड कंपनी के उपकरण में ऐसा नहीं होता। नकली उपकरण बेचने वाले ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं और उन्हें सामान की जांच-परख करने का मौका नहीं देते। कम समय में नकली माल असली बताकर बेचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/jabalpur-beware-fake-power-banks-battery-toys-are-being-sold-in-trains-7617792>

